

NO MOSQUITO, NO MALARIA



सावधान



मलेरिया और डेंगू बुखार से बचें।
हम सब मिलकर इसे फैलने से रोक सकते हैं।



कूलरों को सप्ताह में एक बार
अवश्य साफ करें।



घरों के आस पास पानी इकट्ठा न
होने दें।



छत पर लगी पानी की टंकियों
को ढँक कर रखें।



कपड़े ऐसे पहनें कि शरीर पूरी तरह
से ढँका रहे। मच्छर न काट सके।



टूटे गमले, बर्तन, घड़े, ड्रम तथा
टायर इत्यादि छत पर जमा करके
न रखें।



बुखार आने पर तुरन्त निकट की
डिस्पेंसरी या अस्पताल में खून की
जाँच अवश्य करवायें।

Issued in Public
Interest by:



National Vector Borne Disease Control Programme, Chandigarh